

# Vaswani Industries Limited

POWER • SPONGE IRON • STEEL • CIN - L28939CT2003PLC015964 • GSTN 22AABCV9564E1ZB

Ref: VIL/BSE & NSE/2022/NOV/14

Date: 16.11.2022

To,
The Manager (Listing)
BSE Limited
The Secretary, Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai(M.H.) - 400001

BSE Script Code:533576

The Manager (Listing)

National Stock Exchange of India Ltd. The Manager, Listing Department

Evchange Plaza 5th Floor

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No.C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai-400051.

NSE Symbol: VASWANI

Sub: Newspaper Advertisement – Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published in Free Press Journal, Mumbai (English Language) and Deshbandhu, Raipur (Hindi Language), regarding un-audited standalone financial results for the quarter and half year ended on September 30, 2022, approved at the Board Meeting of the Company which was held on Monday, 14<sup>th</sup> November, 2022 (commenced at 02:00 P.M. and concluded at 04:45 P.M.)

Request you to take this on record.

Thanking You
For, Vaswani Industries Limited

Riya Thourani Company Secretary M No. 69494

Date: 16.11.2022 Place: Raipur

# MINI DIAMONDS INDIA LIMITED

CIN L36912MH1987PLC042515 DW-9020 Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai, Maharashtra 400051, India

E-mail: accounts@minidiamonds.net | Website: www.minidiamonds.net | Tel.: 022 49641850 EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2022

							(Rs. in lakh - Except EPS)
Sr		Quarter Ended			Half Ye	ar Ended	Year Ended
No.	Particulars	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31-03-2022
INO.		Unaudited	Unaudited	unaudited	unaudited	unaudited	Audited
1	Total revenue from operations	3,498.82	3,655.03	1,748.16	7,153.85	3,246.85	9,068.29
2	Net Profit (Loss) after Tax	13.68	29.38	25.94	43.06	33.74	21.36
3	Total Comprehensive Income for the period	13.68	29.38	25.94	43.06	33.74	21.36
4	Equity Share Capital	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00
5	Other Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.23
6	Earnings Per Share (of Rs.10/-each) Basic/ Diluted :	0.40	0.85	0.75	1.25	0.98	0.62

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14th November, 2022 and the same was subjected to "Limited Review" by the Statutory Auditors of the Company.

Place : Mumbai Date : 14th November, 2022



#### SAKUMA EXPORTS LTD.

EXPORTERS & IMPORTERS (GOVERNMENT OF INDIA RECOGNISED TRADING HOUSE) Regd Office: 301-A, Aurus Chambers, S.S. Amrutwar Lane, Near Mahindra Tower, Worli, Mumbai-13 CIN - L51909MH2005PLC155765

Extract of Statement of Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter ended Sept 30, 2022 (As per the format under Annexure XI of the SEBI Circular No .CIR/CFD/CMD/15/2015 dated November 30, 2015) Rs. In Lacs (Except Earning per share)

	Standalone			Conslidated .	
Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended
					30-Sep-22
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
31,126.24	31,500.36	117,385.71	33,234.91	39,052.97	135,927.79
292.59	263.34	888.78	320.54	297.68	1,124.49
301.54	267.03	898.52	329.49	301.37	1,134.23
2,345.59	2,345.59	2,345.59	2,345.59	2,345.59	2,345.59
0.13	0.11	0.38	0.14	0.13	0.48
0.13	0.11	0.38	0.14	0.13	0.48
0.13	0.11	0.38	0.14	0.13	0.48
0.13	0.11	0.38	0.14	0.13	0.48
	Quarter Ended 30-Sep-22 (Unaudited) 31,126.24 292.59 301.54 2,345.59 0.13 0.13	Quarter Ended         Quarter Ended           30-sep-21         30-sep-21           (Unaudited)         31,126.24           31,26.24         31,500.36           292.59         263.34           301.54         267.03           2,345.59         2,345.59           0.13         0.11           0.13         0.11           0.13         0.11           0.13         0.11	Quarter Ended 30-sep-22         Quarter Ended 30-sep-22         Half Year Ended 30-sep-21           (Unaudited) 31,126.24         (Unaudited) 31,262.34         (Unaudited) 31,262.44         (Unaudited) 31,262.44         (Unaudited) 31,262.44         (Unaudited) 488.78           301.54         267.03         898.52           2,345.59         2,345.59         2,345.59           0.13         0.11         0.38           0.13         0.11         0.38           0.13         0.11         0.38           0.13         0.11         0.38	Quarter Ended 30-sep-22         Quarter Ended	Ended 30-Sep-22         Ended 30-Sep-22         Ended 30-Sep-22         Ended 30-Sep-22         Ended 30-Sep-22         Ended 30-Sep-22           (Unaudited)         (Unaudited)         (Unaudited)         (Unaudited)         (Unaudited)         (Unaudited)         (Unaudited)         30-Sep-21           31,126,24         31,500,36         117,385,71         33,234,91         39,052,97         297,68           301,54         267,03         898,52         329,49         301,37           2,345,59         2,345,59         2,345,59         2,345,59         2,345,59           0,13         0,11         0,38         0,14         0,13           0,13         0,11         0,38         0,14         0,13           0,13         0,11         0,38         0,14         0,13

Notes to the unaudited financial results for the year ended Sept 30, 2022:

- The above Unaudited Standalone financial results for the half year ended September 30, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on November 14, 2022. The Auditors have issued an unqualified Audit opinion on these results.
- The Financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.
- The date of implementation of the Code on Social Security, 2020 ('the Code') relating to employee benefits is yet to be notified by the Government and when implemented will impact the contributions by the Company towards benefits such as Provident Fund, Gratuity etc. The Company will assess the impact of the Code and give effect in the financial results when the Code and Rules thereunder are
- . Companys' business activity falls within a single primary business segment i.e. trading in agro products, hence no separate information is disclosed
- Previous Years figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to confirm to the current period

For SAKUMA EXPORTS LTD Sd/-

Place: Mumbai Date: November 14, 2022

Saurabh Malhotra Managing Director (DIN: 00214500)

AUTORIDERS FINANCE LIMITED Read. Office:125/126 MAHARAJA COMPLEX. NEHRU ROAD. SHIRPUR 425405. DHULE DT MAHARASHTRA									
Unaudited Financial Results For the Quarter Ended 30th September, 2022. (Rs. In									
	3	Months Ende	d .	6 Months	s Ended	Year Ended			
Particulars	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022			
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
Net Sales / Income from Operations	-	-	-	-	-	-			
2) Profit / (loss) from ordinary activities after tax	(0.08)	(0.70)	(0.86)	(0.78)	(2.26)	(4.02)			
Other Comprehensive Income		-			-				
4) Total Comprehensive Income	(0.08)	(0.70)	(0.86)	(0.78)	(2.26)	(4.02)			
5) Paid-up Equity share Capital -						' '			
(Face value of Share Rs. 10 each)	1310.70	1310.70	1310.70	1310.70	1310.70	1310.70			
5) Reserves excluding Revaluation Reserve as									
per Balance Sheet of previous accounting year	-	-	-	-	-	-			
6) Earnings per share (EPS)									
Basic and diluted EPS before extraordinary items	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.03)			
Basic and diluted EPS after extraordinary items	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.03)			

Basic and diuded EP's after extraordinary items (U.U.) (U. change under regulation 3.3 of the SEBI (listing obligation and disclosure requirements) requirements and solve substance.co.in.

For Autoriders Finance Limit

Place: Shirpur Date: 14/11/2022

#### **AUTORIDERS INTERNATIONAL LIMITED** 4A, Vikas Centre, S. V. Road, Santacruz-West, Mumbai-400 054

Tel.No. 022-42705201/02 CIN: L70120MH1985PLC037017										
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022. (Rs.ln Lacs)										
		3	Months En	ded	6 Month	Year Ended				
Sr. No.	PARTICULARS	30.9.2022 Unaudited	3022         30.6.2022 Journalited         30.9.2021 Journalited         30.9.2022 Journalited         31.3.202 Journalited           4.11         1.590.60         777.17         3,374.71         1,176.38         3,341.8           3.51         271.46         95.92         564.97         16.75         293.9           3.51         271.46         95.92         564.97         16.75         301.9           3.51         271.46         95.92         564.97         16.75         301.9	31.3.2022 Audited						
1	Net Sales/Income from Operations	1,784.11	1,590.60	777.17	3,374.71	1,176.38	3,341.84			
2	Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	293.51	271.46	95.92	564.97	16.75	293.95			
3	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	8.00			
4	Total Comprehensive Income	293.51	271.46	95.92	564.97	16.75	301.95			
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Share Rs. 10 each)	49.01	49.01	49.01	49.01	49.01	49.01			
6	Reserves Excluding Revaluation Reserve as per per Balance Sheet of previous accounting year	-	-	-	_	_	-			
7	Earnings Per Share (EPS)									
	Basic & Diluted EPS before extra ordinary items	59.89	55.39	19.57	115.28	3.42	61.61			
	Rasic & Diluted EPS after extra ordinary items	50.80	55 30	19 57	115 28	3.42	61.61			

The Company has only one segment.

The figures of the previous period have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held or 14th November, 2022.

Provision for taxation for current and deferred taxes shall be considered at the year end

 i) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Bomaby Stock Exchange under regulation 33
of the SEBI (listing obligation and disclosure requirements) Regulation 2015. The full format of the quarterly and Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites and as well as on the Company website www.autoridersrentacar.com

CIN: U74140MH2004PTC146715

For AUTORIDERS INTERNATIONAL LIMITED Maneka Mulchandan

Place: Mumbai

Date: 14 November, 2022

Finguest Financial Solutions Private Limited

Regd. Office: 602, Boston House, 6th Floor, Suren Road, Andheri (East), Mumbai - 400093 Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th September, 2022							
			•	(amount in Rs.)			
Sr.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended			
		30-09-2022	30-06-2022	31-03-2022			
No.		Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total Income from Operations	272,563,436	77,281,799	1,963,453,744			
2	Net Profit/ (Loss) for the period						
	(before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	185,230,101	-273,128,840	545,077,436			
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax						
	(after Exceptional and/ or Extraordinary items)	185,230,101	-273,128,840	545,077,436			
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax						
	(after Exceptional and/ or Extraordinary items)	136,642,688	-273,128,840	312,955,972			
5	Total Comprehensive Income for the period						
	[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax)						
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	136,682,759	-273,088,769	313,116,259			
6	Paid up Equity Share Capital	319,000,000	319,000,000	319,000,000			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	824,437,509	688,037,701	961,126,470			
8	Securities Premium Account	1,334,959,712	1,334,959,712	1,334,959,712			
9	Net worth	2,478,397,221	2,341,997,413	2,615,086,182			
	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	3,586,701,500	3,625,941,329	3,422,745,214			
11		-	-	-			
	Debt Equity Ratio	1.45	1.55	1.31			
13	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)						
	(for continuing and discontinued operations)						
	1. Basic :	4.28	-8.56	9.81			
	2. Diluted :	4.28	-8.56	9.81			
	Capital Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.			
	Debenture Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.			
	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.			
17	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.			

- I. The aforesaid Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended September 30, 2022 and the Limited Review Report thereon of the Statutory Auditors of the Company have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on November 14, 2022
- The Company is a Non-Deposit taking Systemically Important Non-Banking Financial Company (NBFC-ND-SI) registered with the Reserve Bank of India (RBI) and has been classified as an Investment and Credi Company (NBFC-ICC).
- 3. As per SEBI Operational Circular No.SEBI/HO/DDHS/DDHS Div1/P /CIR/2022/0000000103 dated July 29. 2022 figures for the corresponding quarter of the previous year ended i.e. September 2021 are not presented as the company was not required to submit quarterly results upto June 2021. Hence figures for the Septem ber 2021 quarter have not been arrived.

For Finguest Financial Solutions Private Limited Place : Mumbai Hardik B. Pate Date: 14th November, 2022 Managing Director & CEO (DIN:00590663)

Court Room No. 03 IN THE COURT OF HON'BLE CITY CIVIL &

SESSIONS COURT AT DINDOSHI IN **GOREGAON** 

COMMERCIAL SUMMARY SUIT NO. 203 OF 2022

UNION BANK OF INDIA, Banking Company constituted under The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) at, 1970; Having its Head Office at- 239, Vidhan Bhavan Marg, Mumbai- 400 021 And having its Branch office at, Shop No. B-1, 2, 3, Spring Time CHS LTD., 3rd Golibar Road, Santracruz East, Mumbai - 400055, Maharashtra.

Through MR. MANOJ HARMA Branch Manager Age - 40, Occ. Service Mobile No. 8080724319.

V/S

1. M/S. DURGA CHICKEN CENTRE. Prop. Mr. Vinod Anant Mali,

Age - 37 Years, Occ. Business Shop No. 25, Shree Krupa Home, Shree Malang Road Near Jai Malhar Hotel, Pisavali, Kalyan East, Thane - 421 306. Maharashtra.

2. M/S. CHICKEN STATION. Prop. Sachin Pawar (Franchiser)

Age-Adult, Occ. Business Vashi Infotech Park, 8th Floor, 816, Behind Raghuleela Mall, Near Mahesh Lunch Home, Sector 30-A Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra Mobile No. Not known.

.....DEFENDANTS

...PLAINTIFF

TAKE NOTICE that, this Hon'ble Court will be moved before his Honour Judge H.H.J. CORAM-HHJ SHRI. S.N. SALVE presiding in Court Room No. 03 on 03.12.2022 at 11:00 am in the forenoon by the above named plaintiff for following relief:-

#### The Plaintiffs therefore prays:

- a) That the Defendants be decreed and ordered to pay to the Plaintiffs a sum Rs. 6,55,006.72/- (Rupees Six Lakh Fifty Five Thousand Six and Paisa Seventy Two Only) as on 28.02.2022 with further interest @ 10% P-A. monthly rests from 01.03.2022 and penal interest at the rate of 2% on simple rate basis from the date of filing of the suit till judgment and thereafter further interest at the same rate from the date of judgment till payment as the advance was granted to the Defendants for its business purpose within the meaning of Section 34 of the Civil Procedure Code, 1908.
- b) This Hon'ble Court be pleased to fix a time within which the Defendants be directed jointly and/or severally to pay the said dues amounts in terms of prayers (A) above and in default the said several securities of the applicant being the said movable assets of the Defendant more particularly described in Exhibit K, hereto be sold by way of private treaty and or public auction and proceeds thereof be made over to the applicant bank in protanto satisfaction of its dues may be certified in prayers (A) above;
- c) That in the event of deficiency on such sale and realizations personal decrees be passed against Defendant to the extent of such deficiency;
- d) The Defendants be directed to furnish a list in the form of an affidavit giving therein complete details of all their respective movable and immovable assets including Cash and Bank balances held by them either in his respective personal names and/or jointly and/or severally with others and file the same in this Hon'ble Court.
- e) This Hon'ble Court be pleased to make an order of attachment of all those movable / immovable properties of the Defendants including cash and Bank balances and other receivables held by him either in his respective personal names and/or jointly severally with others to be furnished by the Defendants in the form of an affidavit in terms of prayers above;
- That the Defendants may be directed to pay to the Plaintiff their costs of the suit.
- g) And for such other and further reliefs as the nature and circumstances of the case may require. Dated this 5th day of November, 2022

Sd/-Sealer

City Civil Court, Dindoshi

For Registrar

ANANDKUMAR R. SINGH Shop No. 10 Sunshine Commercial Complex Station Road, Nallasopara (E), Tal. -Vasai, Dist. Palghar, Maharastra-401 209

Mob - 9619603320 anandsingh253@gmail.com

M/S DURGA CHICKEN CENTRE & ANR.



#### **GRAND FOUNDRY LIMITED** CIN: L99999MH1974PLC017655

Regd Office: 327, Arun Chambers, Tardeo Road, Mumbai - 400 034. Ph. No. 022-23526316; E-mail Id:-cs@gfsteel.co.in; Website: www.gfsteel.co.in

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended 30th September, 2022

(Rs. in Lakhs)

Rs. 10/- each)

Basic

i) Diluted

Place: Raipur

Date: 14.11.2022

	Quarte	r Ended	Year Ended	
Particulars	30-Sep-22	30-Sep-21	30-Sep-22	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
Total Income from operations (net)	0.00	0.00	0.00	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	-8.9	(3.39)	(17.05)	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, (after) exceptional and / or extraordinary items)	-8.9	(3.39)	(17.05)	
Net Profit / (Loss) for the period (after tax, exceptional and / or extraordinary items)	-8.9	(3.39)	(17.05)	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	0.00	0.00	0.00	
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 4 per share)	1217.2	1217.20	1217.20	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet date	118.82	118.82	118.82	
Basic and diluted earning per share (EPS)	-0.01	0	-0.01	

- The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the guarter and half year ended 30th September, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and its extracts is available on the Stock Exchanges websites i.e. BSE Ltd. (www.bseindia.com), and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and website of the Company i.e. www.gfsteel.co.in
- The detailed Financial Results and this Extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on Monday, November 14, 2022.
- A Limited Review as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the auditors on the detailed unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022 filed with the Stock Exchanges.

Place · Mumbai

Place: - Mumbai

Director DIN: 00491027

For Grand Foundry Limited Director and CEO Date : November 14, 2022 DIN: 00734650

## ANTARIKSH INDUSTRIES LIMITED

Regd Office : Office No.609, 6th Floor, Inizio, Cardinal Gracious Road, Opp. P&G, Chakala, Andheri (e), Mumbai. - 400 099. Tel. No. - 022-25830011; Email ID: antarikshindustrieslimited@gmail.com Website: www.antarikshindustries.com: CIN: L74110MH1974PLC017806 ent of Unaudited Financial Result for the Quarter & Half Year Ended 30th September, 2022

Particulars		Quarter End	ed	Half Ye	ar Ended	Year Ende
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	30-09-2022	30-06-2022	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2021	31-03-2022
Revenue from Operation (Net)	135.14	202.89	334.12	338.03	527.02	2,274.90
Other Income	-	0.16	-	0.16	0.06	0.24
Total Income	135.14	203.05	334.12	338.19	527.08	2,275.14
Expenses						
Cost of Material Consumed	131.53	198.65	328.98	330.18	516.42	2,249.08
Changes in Inventories	-	-	-	-	-	
Employee Benefits Expense	1.34	1.32	1.23	2.66	2.14	4.52
Finance Costs	-	-	-	-	-	
Depreciation & Amortisation Expenses	-	-	-	-	-	
Other Expense	1.45	2.60	1.85	4.05	5.65	10.66
Total Expense	134.33	202.57	332.06	336.90	524.21	2,264.2
Profit from operations before						
exceptional items and tax	0.82	0.48	2.06	1.30	2.87	10.8
Exceptional Items	-	-	-	-	-	
Profit befor taxes	0.82	0.48	2.06	1.30	2.87	10.88
Tax Expense						
Current Tax	0.21	0.12	0.54	0.34	0.75	3.0
Deferred Tax	-	-	-	-	-	
Total tax Expense	0.21	0.12	0.54	0.34	0.75	3.0
Profit/(Loss) for the Period	0.60	0.36	1.52	0.96	2.12	7.87
Other Comprehensive Income						
(Net of taxes)	-	-	-			
Total Comprehensive Income	0.60	0.36	1.52	0.96	2.12	7.8
Paid up Equity Share Capital						
(Face Value Rs.10 per Share)	20	20	20	20	20	20
Earnings Per Share						
Basic	0.30	0.18	0.76	0.48	1.06	3.93
Diluted	0.30	0.18	0.76	0.48	1.06	3.93

1. The company operate in only one reportable statement i.e. Real Estate and Trading Activities

- 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind As) prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 and the other recognised accounting practices and principles to the extent applicable.

  3. The above results for the quarter and half year ended 30th September 2022 were review by the Audit Comm
- and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th November, 2022. The unaudited results for the current quarter have been subjected to limited review by the Statutory Auditor of the Company. The review report of the Statutory Auditor is being filed with BSE Limited.

4. The Previous year figures have regrouped/ reclassified wherever considered necessary

By order of the Board Antariksh Industries Limited Bhagwanji Patel - Director (DIN: 05019696 मराढी मनाचा



www.navshakti.co.in

**PUBLIC NOTICE** Our Clients intend to purchase Flat No. 1001 on the 10th Floor adm. 1350 sq. ft carpet area from the developer Mr. Dhruva Mahendra Rathod in Shrishti Building situated at 14th Road, Khar (West), Mumbai - 400052 on Plot No. 358/A of Towi Planning Scheme VII having C.T.S. No. E-370.

Any person / institution having any claims or charge over the aforesaid flat shall lodge their claims or objection, if any, together with documentary proof to the undersigned within 14 days from the date of this Notice, failing which it would be deemed that there are no claims, charge or encumbrance whatsoever on the aforesaid flat and further our clients shall proceed to purchase the abovesaid flat and any subsequent claims or objections shall be deemed to have been waived. Date: 16-11-2022

Rakesh G. Jain Advocate High Court 2/20, Kesar Building, 201/211, Princess Street Mumbai - 400002

## SHASHIJIT INFRAPROJECTS LIMITED

CIN: L45201G.I2007PLC052114

Registered Office: Plot No. 209, Shop No. 23, 2nd Floor, Girnar Khushboo Plaza, GIDC, Vapi-396195, Gujarat, India. Tel. No. 0260-2432963 W: www.shashijitinfraprojects.com E: info@shashijitinfraprojects.con

UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2022	Corresponding Quarter ended 30.09.2021	Year to date ended 30.09.2022	Year ended 31.03.2022
01.	Total Income from Operations (net)	808.655	630.735	1644.538	2847.22
02.	Net Profit / (Loss) for the period	1.748	2.983	17.639	15.456
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)				
03.	Net Profit / (Loss) for the period before tax	1.748	2.983	17.639	15.456
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)				
04.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	4.974	-3.057	169.42	12.844
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)				
05.	Total Comprehensive Income for the period	5.285	-1.305	17.584	18.038
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and				
	Other Comprehensive Income (after tax)]				
06.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/-)	1034.40	1034.40	1034.40	1034.40
07.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in				99.12
	the Audited Balance Sheet of the previous year				
08.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	(for continuing and discontinued operations) -				
	1.Basic:	0.05	-0.03	0.16	0.17
	2.Diluted:	0.05	-0.03	0.16	0.17

The above is an extracts of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The said result has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their neeting held on 14th November, 2022. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com and on the Company's website www.shashijitinfraprojects.com.

For and on behalf of the Board of

Dated: 16th November, 2022

SHASHIJIT INFRAPROJECTS LIMITED

Ajit Jain

**Chairman & Managing Director** 

# **CONTINENTAL CONTROLS LIMITED**

CIN No: L31909MH1995PLC086040

Gala No. 202, Krishna House, Shailesh Udyog Nagar, Opp. Nicholas Garage, Sativali Road, Waliv, Vasai (East), Palghar - 401 208 | web site : www.continentalcontrols.net STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPT, 2022

Rs. in Lacs Quarter ended Half Year Ended Year Ended Particulars 30-Sep-22 30-lun-22 30-Sep-21 30-Sep-22 30-Sep-21 31-Mar-22 (Audited) Unaudited evenue from operations 275.89 312.75 779.71 Other income 0.39 3.17 0.77 3.56 0.80 132.40 III Total Income (I+II) 130.04 149.41 168.90 279.45 313.55 912.11 Cost of materials consumed 104.82 185.56 232.40 557.29 Changes in inventories of finished goods -0.21 20.06 (0.21)-5.29 6.42 and work-in- progress 13.26 9.73 14.59 22,99 28.93 57.32 Employee benefits expenses Finance Cost 13.35 9,53 9,97 22.89 20.87 41.85 Depreciation and amortization expense 21.19 21.55 42.62 42.86 85.74 21.42 55.46 43.59 30.78 99.05 80.03 199.28 ther expenses

Total Expenses 184.02 188.86 201.13 372.88 399.80 947.90 V Profit before tax (III-IV) (53.98) (39.45) (32.23) (93.43) (86.25) (35.79) VI Tax Expenses: Income tax Deferred tax MAT credit utilised Profit for the period (V-VI) (53.98) (39.45) (32.23)(93.43) (86.25) (35.79) Other Comprehensive Incom Total Comprehensive Income for the period (53.98) (39.45)(32.23)(93.43) (86.25) (35.79)Total Paid-up Equity Share Capita (Face Value Rs. 10/- each) 614.63 614.63 614.63 614.63 614.63 Reserves excluding Revaluation Reserves arnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualized) a Basic (0.52)(1.52)(0.58)(0.88)(0.64)(1.40)(0.58)

. Dilute

1 The above unaudited results have been reviewed by the Audit Committee and approved in the meeting of Board of Directors held or

(0.64)

(0.52)

- 14" November 2022 and Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the same. The Company's business activity falls within a single primary business segment.
- The limited review of unaudited financial results for the quarter and half year ended 30° Sept. 2022 as required in terms of clause 33 of the

(0.88)

4 Previous year's figures are re-grouped, re-arranged, re-classified wherever necessary

For and on behalf of the Board of Directors **Continental Controls Limited** 

(1.40)

(Rs. in Lakhs)

For the Half Year ended | Year ende

Place : Mumbai Date : 14<sup>th</sup> November 2022 Samir Thakkar Director

(1.52)

#### VASWANI INDUSTRIES LIMITED CIN:L28939CT2003PLC015964

Regd. Office :BAHESAR ROAD, NEAR CYCLE PARK, VILL -SONDRA PHASE-II, INDUSTRIAL AREA, SILTARA RAIPUR (C.G.) 493221 Unaudited Standalone Financial Results for the Period Ended 30.09.2022

For the Quarter ended

**Particulars** 30-Sep-22 30-Sep-21 31-Mar-22 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | 30-Sep-21 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) I Revenue from operations: 8,663.31 10,393.99 7,986.61 19,057.30 16,808.98 37.442.07 II Other Income 51.24 60.26 18.15 111.50 24.34 78.37 III Total Income from Operations 1+11 8,714.55 10,454.25 8.004.76 19.168.80 16,833.32 37.520.44 IV EXPENSES a. Cost of materials consumed 6,797.73 7,122.96 6,262.71 13,920.69 12.818.15 27.019.13 o. Cost of traded goods sold 867.46 1679.84 760.96 2.547.30 1.523.48 4.238.7 . Changes in inventories of finished goods (430.38)198.20 (253.60)(232.18)(302.50)(235.35) d. Employees benefits expenses 234.98 204.35 186.44 439.33 353.36 786.27 393,84 Finance costs 215.07 204.83 208.24 419.90 887.44 Depreciation and amortisation expenses 34.65 148.38 110.54 183.03 219.95 365.32 g. Other Expenses 749.94 631.60 681.56 1.381.54 1.574.38 3.736.68 Total expenses (a+b+c+d+e+f+g) IV 8.469.44 10.190.16 7.956.85 18.659.61 16.580.67 36.798.26 V Profit / Loss before exceptional Items & tax (IIHV 245.11 47.91 509.19 252.65 722.18 264.09 VI Exceptional items VII Profit / Loss before and tax V-VI 245.11 264.09 47.91 509.19 252.65 722.18 VIII Tax Expense 57.91 85.31 20.93 143.22 30.54 203.02 a) Current Tax b) Deffered Tax 8.41 (19.45)(8.42)(11.04)41.81 76.89 IX Profit / (Loss) for the period l vil-viii 178.78 198.23 35.40 377.00 180.30 442.27

X Other comprehensive Income A. (i) Items that will not be reclassified to profit 4.13 and loss: (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss B. (i) Items that will be reclassified to profit or loss (II) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss XI Total Comprehensive Income for the period IX+X 178.78 198.23 35.40 180.30 446.40 377.00 [Comprising Profit (Loss) and Other comprehensive Income for the period) XII Paid-up Share Capital (par value Rs. 10/each fully paid up) 3,000.00 3.000.00 3,000.00 3.000,00 3,000.00 3,000,00 XIII Earnings per equity share (Par value

> 1.26 1.47 BY ORDER OF THE BOARD FOR, VASWANI INDUSTRIES LIMITED Sd/- SATYA NARAYAN GUPTA

0.60

0.60

1.47

0.60

0.60

Director Seal DIN: 09517381

0.12

0.12

0.66

0.66

1,26





कुछ लोग हैं जो बंगाल को पसंद नहीं करते हैं और वे राज्य को लगातार बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है, तो उसे ठीक किया जाना चाहिए।

-ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री



		तापमान	अधिकतम	
	Þ	दिल्ली	29`.	
	Þ	मुंबई	29`.	
_	Þ	कोलकाता	28`.	
	•	चेन्नर्ड	29	П

# जनजातीय समुदाय की विशेषताएं अनुकरणीय : मुर्मू

#### राष्ट्रपति ने जनजातीय गौरव दिवस पर समारोह को किया संबोधित

शाहबेल, 15 नवान्यर (एवंसिस्यो)। राष्ट्रपति द्रीपदी सूर्म ने जनजातीय गोराव दिवस के अवस्य पर कहा कि जनजातीय समुद्राय की कई विशेषाताएं अनुकराणीय हैं और उनका विकास देश के विकास से जुड़ा है। सूर्म, मध्य प्रदेश के शहबेल जिल के लालपुर में आयोजिज जनजातीय गोराव दिवस के राज्य स्तरीय समागीह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्याल मंगुमां पटेल, मुख्यमंत्री शिकराज सिंह चीहान, इंदीय मंत्री अञ्चन मंद्रा एक्टा महिंह कुलाले, प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, मीना सिंह ऐसा सिंह एटेल और भारतीय जनता पर्यो की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुत्त ज्ञामं भी मौजूर थे। समागीह में राष्ट्रपति सूर्म ने राज्य में पेसा एक्ट (असुम्बित कीत्री में पंचारतों का विलास संबंधी अधिनयम) संबोधत नियमावाली भी जारी की। कार्यक्रम से मुन्न में हिस्स पण्डल लागु करने की औपचारिक भीणणा की थी: सर अवसर पर मुन्न ने कहा कि जजातीय गौराव दिवस के इस समागोह में गोह, बैंगा, भीना दिवस के इस समागोह में गोह, बैंगा, भीना

जनजातियों के लोग उपस्थित हैं, जो उनके प्रति जनजातियों के लोग उपस्थित हैं, जो उनके प्रति जनजातीय समुदाय के विशेष प्रेम का परिचायक है। उन्होंने दतने व्यापक स्तर पर आयोजित दस हा उन्हान इतन व्यापक स्तर पर आयाजित इस समारोह के लिए राज्य सरकार को साधुवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि देश में जनजातीय समुदाय की आबादी लगभग 10 करोड़ है, जुड़न ना जानाचा सामा 10 करीड़ है, जिनमें से डेढ़ करोड़ के आसपास मध्य प्रदेश में हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। ऐसे में ये कार्यक्रम यहां आयोजित किया जाना सर्वदा प्रासंगिक था। अपने लगभग 15 मिनट के



#### जनजातीय समुदाय के विकास कार्यों में जुटी है केंद्र सरकार : <mark>द्रौपदी मुर्</mark>जू

#### राष्ट्रपति ने पेसा एक्ट की नियमावली का किया विमोत्तव

संबोधन में मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार इस समुदाय के विकास कार्यों में जुटी है। इस वर्ग का विकास देश के विकास से सीधे तौर पर जुड़ा हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिटारी तालपेसी के कार्यकाल के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय गठित हुआ, जिसके बाद इस समुदाय के लिए राष्ट्रीय स्तर

जिसके बाद इस समुदाय के लिए राष्ट्रीय करा पर कार्य सुरू हुए। नजातीय समुदाय जीन संपदा से समुद्र के जीर समुदाय के लोग प्रकृति की रक्षा के कार्य में लगे रहते हैं। ब्रिटिश सामान्य के दौरा भी इस समुद्राय के बलिवान से ही नब्दिश संपर्ध किए। इस समुद्राय के बलिवान से ही नव संपर्ध किए। इस समुद्राय के बलिवान से ही नव संपद्ध का संरक्षण हुआ। सुमूं ने कहा कि आदिवासी समुद्राय व्यक्ति के स्थान पर समूह

भोपाल, 15 नवम्बर (एजेंसियां)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीहोर जिले के

सलकनपुर मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों की तत्काल

मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और मामले के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कमलनाथ ने अपने द्वीट के माध्यम से

गा आस्था के केंद्र सलकनपुर धाम में

जास्या के कड़ संराक्षण तुर पान न जिस तरह से मंदिर में चढ़ाए दान की चोरी हो गई है, उससे पता चलता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खराब

हो गई है और चोर-बदमाशों में

हा गई है और चार-बंदमाशा म कानून का कोई डर बचा नहीं है। यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं है बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट

करने का मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री

कहा कि जन**् सवाल** 

मंदिर में चढावा चोरी मामले के

आरोपी हों गिरफ्तार : कमलनाथ

#### पेसा कानन से अन्य समदाय को भयभीत होने की जरूरत नहीं : शिवराज

भारती है। जिस्सी के प्रश्नमंत्री विश्ववश्य सिंह चौहान ने भगवान किस्सा मुंडा को जर्मतों के मौके पर राष्ट्रपति होग्यदों मुं को उपस्थित में राज्य में स्मा एवं राष्ट्रपति होग्यदों मुं को उपस्थित में राज्य में से पाए राष्ट्रपति होग्यदों मुं को उपस्थित में राज्य में से पाए राष्ट्रपति होग्यदों में में पायती का विस्तार संबंधी अधिनया) साण कर देते हाथ सकर की स्त्रां में पायता को भारती होने को कल्पत नहीं है। चौहान ने कहा कि सरकार समाजिक समस्सता के साथ भेसा कानून लागू कर रही है। चौहान अधिवयानी बहुल अहहील जिला में स्वां में से पायता होने को की की स्वां में साथ में साथ स्वां में साथ सरतीय जनजातीय गीरत दिवस आधीवन को संबंधीपत कर रहे थे। चौहान ने राज्य में सेपा एकट लागू होने की औपपातिक पोणाण करते हुए अक्त कि इसमें मुख्य स्वं अन्य नी के की आपतातिक पोणाण करते हुए अक्त कि इसमें मुख्य स्वं अन्य नाम के निया मान कि साम के साथ से जनजातीय की की आपताति का मान के प्राचान किए एवं है। बोहान की स्वं में में स्वां में में भा पायता ने साथ में में में स्वां में मान में में में में साम में में में में मान में में में में साम में में में में मान में में में में मान में में में में मान में में में महान को अरावी है। उन्होंने अरोवी की हितान संबं किया। अरीव उनके नाम से कोमने थे। उन्होंने मान में में में में मान में में में में साम के में में साम में में में से साम में में से में में साम में में में महान को करती है। उन्होंने मान में में में में मान भी से में में महान को करती है। वहनी शोष में मान में में में महान को करती के में पाया ने साम में में में में मान भी से में महान को करती के मुख्य में में मान में में में महान को करती के में प्राचान में में महान को करती के में महान में साम में में में महान को करती के में स्वां में मान में साम में में में महान को करती है। करती को में मान में में में महान को करती है। करती को मान में में में में मान में में में महान को करती है। करती को मान में में में में मान में में में महान को करती है। करती को मान में में में में मान में में में महान की स्वां में मान में में में महान की स्वां में मान में में में महान की स्वां में मान में में में में मान में में में में में मान में में में में मान में में में में मान में में म के भगवान थे। ऐसे महान क्रांतिकारी को वे प्रणाम करते हैं।

और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहभागिता को आर प्रावस्था क स्थान पर सहभागाता का अस्य वर्गों को तुलना में बेहतर है, इस समुदाय में अन्य वर्गों को तुलना में बेहतर है, इस समुदाय ने कहा कि बेंगा समुदाय की परंपरागत तरीके से मनुष्य के रोगों के इलाज की विधि मंत्रकोत्तरी है। असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते हैं। इसको तिपियद्ध करने के प्रथास कर देते हैं। इसको लिपिबद्ध करने के प्रयास होंगे। इस ज्ञान का उपयोग करना जरूरी है। मर्म

कहा कि इस समुदाय के कई प्रभावशाली लोगों का देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यावरण

लागा को देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पेयावरण और खेल–कूद आदि में उल्लेखनीय योगदान है। समुदाय के कई लोगों को पद्म पुरस्कार भी मिल रहे हैं, जिससे समाज को देशहित में उनके योगटान की जानकारी मिल रही है। इस अवस्प यागदान का जानकारा मिल रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदाय से आने वाले देश और मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण कर उन्हें नमन किया।

### जम्मू के लोगों को डराने की बडी साजिश रच रहे आतंकी

जम्मू, 15 नवम्बर (देशबन्धु)। आतंकी गुट जम्मू को निशाना बनाने के इरादों से जम्मू शहर के आसपास आतंकी हमलों को अजाम देने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। पर अभी तक उन्हें नाकामी ही हाथ लगी है। इसी क्रम में देर रात को फ्लाएं मंडाल क्षेत्र में सैन्य छावनी

- पुलिस चौकी के पास दो आईईडी किए गए बरासट
- शहर के बाहरी डलाके फ्लाएं मंडल में बडा हादसा टला

और पुलिस स्टेशन में धमाका करने की बड़ी आतंकी साजिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इसी तरह से मंगलवार को बना। दिया। इसा तरह स मगलवार का जिला जम्मू के घरोटा क्षेत्र के सेरी गांव में एक खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इसे कब्बे में लेकर आगामी जांच पुालस न इस कब्ब म लकर आगामा जाच शुरू कर दी है। जम्मू के लोगों को आतंकी इराने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। अधिकारी जम्मू शहर से सटे सटे फ्लाएं मंडाल क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास



थरामद व्यन्तः ..., पड़ी थी। जिस क्षेत्र से आईईडी मिली, वहां से

#### दोनों आईईडी में लगे थे सक्रिय टाइमर

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि फलियां मंडल इलाके में पुलिस चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर सोमवार रात एक बैंग में दो आईईडी मिले। दोनों आईईडी में सक्रिय नाटर का हूरा पर सामधार रहा एक बंग न दो आइइडा ानला दोना आइइडा न साक्रथ उद्दूष्तर लगे थे। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बन मिरोधक दर्स की टीम को तुरंत वहां बुलाया। उन्होंने कहा कि बीडीएस टीम मौके पर पहुंची और आईईडी को बरामद कर बाद में मौकू पर उसे निष्क्रिय करू दिया। पुलिस और सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शरू कर दिया है।

#### सार संक्षेप

#### द्याञ्खंद ञ्थापना दिवञ पर मोदी ने दी बधाई

नर्ह दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारखंड राज्य के स्थापना दिवस पर मंगलवार को झारखंड वासियों को बधाई दी और राज्य की समृद्धि की कामना की।मोदी ने बधाई संदेश में कहा कि समस्त झारखंडवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधन और जनजातीय कला-संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त करे झारखंड की स्थापना 15 नवम्बर 2 को तत्कालीन अविभाजित बिहार से जनजातीय बहुल दक्षिणी जिलों को अलग कर की गई थी।यह राज्य कोयला और कई अन्य प्रकार के खनिजों के लिए जाना जाता है।

#### कश्मीर में हिमपात से ठंड बढी

श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मु-कश्मीर के कश्मीर घाटी में हिमपात होने से अधिकतम तापमान में लगातार तेजी से गिरावट आने से छं के हालात बने हुए है और कई इलाकों में बादल छाये रहने से न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख के द्रास में आज न्यूनतम तापमान शून्य से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ने अजले २४ घंटों में नम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने के साथ-साथ एक या दो स्थानों पर हत्की वारिश होने के अनुमान जताया

#### मालेगांव विस्फोट मामले में गवाह मुकरा

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जुड़े 28 के मालेगांव विस्फोट मामले में

अभियोजन पक्ष का एक और गवाह मंगलवार को मुकर गया। विशेष एनआईए अदालत में गवाह दयानंद पांडे ने कहा कि वह 75 साल क है और इसलिए उसने अपने बयान में जो कहा था उसे याद रखना उसके लिए मुश्किल है। दयानंद ने कुरस्वात है। युवानय न कहा कि उसे याद नहीं है कि उसने महाराष्ट एटीएस को दिए अपने बयान में क्या कहा था। मुंबई से दो किमी दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटर साइकिल में बंधे एक विस्फोटक उपकरण के फटने से

छह लोग मारे गए थे और 1 से अधिक

घायल हुए थे। मामले के सभी सात आरोपी फिलहाल जमानत पर

बाहर हैं।

#### की कुल संख्या बढ़ाकर 17 कर दी। ज्यायालय जिला दण्डाधिकारी, रायपुर

नोटिस क्रमांक/१७४/व-१२१/२०२१-२२/१३५ ति. रायपुर, दिशांक १४ आक्टूबर, २०२३

- निवासी महात्मा गांधी वार्ड मं. २५ कपडा मार्केट के पीछे घ.मं. ६३३ पंडरी जिला रायपर



#### गोवा में कांग्रेस के 21 ब्लॉक अध्यक्ष नियक्त



पणजी, 15 नवम्बर (एजेंसियां)। कांग्रेस ने मंगलवार को गोवा में 21 ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष नियुक्त किए। कांग्रेस की ओर से जारी बयान कहा गया है कि ये नियुक्तियां राज्य पार्टी के पुनर्गठन का हिस्सा है। गत सितम्बर में सत्तारूढ़ भारतीय

जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के लिए उसके आठ विधायकों के छोड़ने के बाद पार्टी ने ब्लॉक समितियों को भंग कर दिया था। पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने ब्लॉक कांग्रेस समितियों में तत्काल प्रभाव से जार्यस सानायां न संस्कृति कृतायं स ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। बयान में कहा गया है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से परामर्श के बाद ब्लॉक समितियों का गठन किया जायेगा। तेलंगाना में केसीआर ने किया आठ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन

# कराएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि अपराधियों को तत्काल गिरप्तार किया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों को बालाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, उसके पूरे

ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी

में रहने वाले हमारे श्रद्धा के केंद्र भी

प्राम आदमी को कैसे सुरक्षा मुहैया

सुरक्षित नहीं हैं तो भाजपा सर

कराएगी।

इंतजाम किए जाएं।

नई दिल्ली,15 नवस्य (देशवस्)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रसंखर राव ने मंगलवार को प्रगति भवन से आठ जिलों के आठ नविनिधित सस्कारी मेडिकल कोलेज में सैक्षणिक वर्ष का औपचारिक उद्घाटन किया। केसीआर ने इसे राज्य के इतिहास में एक शुभ दिन बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य कर जिले में एक सस्कारी मेडिकल कोलेज WASWANI INDUSTE VASWANI INDUSTRIES LIMITED ाक हमार लदब हर जिल न एक सरकारा माडकर कालज लाना है। इस लॉन्च के साथ ही हमारे पास 17 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो गए। जल्द ही यह संख्या राज्य के सभी 33 जिलों के 33 मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच जाएगी।

Place: Raipur Date: 14.11.2022

VAS VVAN I III. 28939CT20039LC015964

Regd. Office :BAHESAR ROAD, NEAR CYCLE PARK, VILL -SONDRA PHASE-II,
INDUSTRIAL AREA, SILTARA RAIPUR (C.G.) 493221

SILDAGE I Desurits for the Period Ended 30,09,20

मंचेरियल, जगतियाल, वानापर्थी, कोठागुडेम, नागरकुरनुल		(Rs. in							
और रामगांद्रम में आद तम सरकारी मेरिकल कॉलेज ते \$					For the Half Year end 30-Sep-22 30-Sep-		Year ende 31-Mar-2		
एक ही समय में अपने एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू किए।			30-Jun-22		(Unaudited)				
इसके लॉन्च इवेंट में आठ जिलों के जिला कलेक्टरों,   Revenue from operations:	_	8.663.31	10.393.99	7.986.61	19.057.30	16.808.98	37.442.0		
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मेडिकल छात्रों ने    Other Income		51.24	60.26	18.15	111.50	24.34	78.3		
भाग लिया। ये नए मेडिकल कॉलेज जिनकी लागत 4,080 III Total Income from Operations	м	8,714,55	10,454.25	8,004.76	19.168.80	16.833.32	37,520.4		
करोड रुपए है, तेलंगाना में एमबीबीएस सीटों की संख्या में N EXPENSES			10,141.41	4,000.00	14,111.11	14,000.00	21,142.11		
कुल मिलाकर 1,150 की वृद्धि करेंगे। हाल ही में इन a. Cost of materials consumed		6,797.73	7,122.96	6,262.71	13,920.69	12,818.15	27,019.13		
कॉलेज में दाखिले हुए हैं। गौरतलब है कि साल 2014 तक b. Cost of traded goods sold		867,46	1679.84	760.96	2,547.30	1,523.48	4,238.7		
तेलंगाना में केवल तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। C. Changes in inventories of finished goods		(430.38)	198.20	(253.60)	(232.18)	(302.50)	(235.35		
d. Employees benefits expenses		234,98	204.35	186.44	439.33	353.36	786.2		
हालांकि, सरकार ने राज्य की स्थापना पर मेडिकल कॉलेजों e. France costs		215.07	204.83	208.24	419.90	393.84	887.4		
की कुल संख्या बढ़ाकर 17 कर दी। f. Depreciation and amortisation expenses		34.65	148.38	110.54	183.03	219.95	365.3		
g. Other Expenses		749.94	631.60	681.56	1,381.54	1,574.38	3,736.6		
जिला दण्डाधिकारी, रायपुर Total expenses (a+b+c+d+e+f+g)	N	8,469.44		7,956.85	18,659.61	16,580.67	36,798.2		
नोटिस VI Exceptional items a ux	(BAN)	245.11	264.09	47.91	509.19	252.65	722.1		
२०२१-२२/१३५ शबपुर, दिलांक १४ अस्टूबर, २०२२ VII Profit / Loss before and tax	V-VI	245.11	264.09	47.91	509.19	252.65	722.1		
VIII Tax Expense	500	-	-	-	-		-		
स माधकानी a) Current Tax		57.91	85.31	20.93	143.22	30.54	203.0		
reconsumumility b) Defend Tax		8.41	(19.45)	(8.42)	(11.04)	41.81	76.8		
ांधी वार्ड में. २५ कपड़ा मार्केट के पीछे म.मं. ६३३ पंडरी जिला रायपुर (X Profit / (Loss) for the period	VI-VII	178.78	198.23	35.40	377.00	180.30	442.2		
अधिकारी प्रथमात शोध फाइवेंस कार्योशक विश्वितेष्ठ एस शे. डिपो के. X Other comprehensive Income	9000	1800000	1500000	5750850	0533406		11.500000		
अंग्रेपकार व्यवस्था कार्यास्त्र कार्यास्त्र कार्यास्त्र विकार कार्यास्त्र कार्यास्त्र विकार कार्यास्त्र कार्य कार्यास्त्र कार									
हित पत्र के द्वारा आपको कंपनी से १९,७४,८२९,०० कपने का जाग		( 6)		- 6			4.13		
(ii) Income tax relating to items that will not be		1							
अटावर्गी जरी कर रहे हैं। विश्वके कारण अल्पको कंपनी तथा अधिनिवय reclassified to profit or loss							133		
नोटिस जारी किया गया कि आप क्या की अदायगी यह ब्याज एवं अन्य   B. (i) Items that will be reclassified to									
६.०० अदा करे. अन्यथा आपके द्वारा रखी गई बंधक संपन्ति कंपरी   profit or loss		13.5				85	- 83		
कि जानकारी दी जाकर, कंपनी के पक्ष में बंधक रखी संपत्ति का करता (II) income tax relating to items that will be									
reclassified to profit or loss	200			2005	000,0000	*	223		
रिपकारी एएपावर होन फाइनेस कार्योशन लिमिटेड एस.टी.डियो के सामने XI Total Comprehensive Income for the period	IX+X	178.78	198.23	35.40	377.00	180,30	445.4		
८२५.०० रूपचे का साम प्राप्त कर चीजा पंडरीलगई, प.स.मं. १०८ जिल्ला   Comprising Profit (Loss) and Other									
र भाग पर निर्मित स.नं. २५ कंपनी के पक्ष में बंधक रखा है। comprehensive income for the period)									
वे गये ऋण के पक्ष में उपरोक्त बंधक रक्षी गई अवल संपत्ति को विशीय XII Paid-up Share Capital (par value Rs. 10/-									
n और पुनर्राजन और प्रतिपृति हित प्रकार्यन अधिरियम २००२ की था।। योग करते हुए क्यों न आधिरूप में लेने की कार्यवाही की जाये। आप XIII Earnings per equity share (Par value		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.0		
मोग करते हुवे क्यों न आधिपत्य में लेने की कार्यवाही की जाये। आप अभिमाशक के माध्यम से बाग से संबंधित एवं बंधक रखी गई संबंधित से									
आभभाषक के माध्यम से प्रांग से संबंधित एवं बंधक रक्षा गई स्थान से		0.60	0.66	0.12	126	0.60	1.6		
स अनुता करन शतु इस न्यायालय म पता । दशक २१.११.२०२२ कर		0.60	0.66	0.12	126	0.60	1.4		
Stat silvation and travel total at Salesan also states of the states of the property		0.00	0.00	0.12	1.20	9.00	1.9		

BY ORDER OF THE BOARD FOR, VASWANI INDUSTRIES LIMITED Sd/- SATYA NARAYAN GUPTA

#### मातृभूमि की अस्मिता को भगवान बिरसा मंडा ने किया सर्वस्व न्योछावर : ओम बिरला संसद भवन परिसर में बिरसा मुंडा की मूर्ती पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित

**नई दिल्ली,**15 नवम्बर (देशबन्धु)। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को आदिवासी जननेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा को



दिवस के अवसर पर संसद भवन ादवस के अवसर पर ससद मवन परिसर में उनकी मूर्ती पर श्रद्धा सुमन अपित किए। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बिरला ने याद किया कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जागृति लाने में भगवान क खिलाफ जागृत लाग म मगवाग बिरसा मुंडा की अहम भूमिका। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों के अधिकारों व स्वाभिमान की रक्षा के जापनारा च स्थानमार मुझ ने आजीवन लिए भगवन बिरसा मुंडा ने आजीवन संघर्ष किया और मातृभूमि को अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। श्रद्धांजलि देते हुए बिरला ने कहा कि भगवान बिरमा मंड



रहेंगे।बिरला ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस की आदिवासी

समाज को बधाई देते हुए कहा कि यह गौरवशाली दिन हमें आदिवासी समाज को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा देता है। का प्रात्साहत करने का प्ररेण देता है। बिरला ने आह्वान करते हुए कहा कि आज के दिन हम आदिवासी संस्कृति और परम्पराओं को सहेजने का संकल्प जार रन्याजा वा सहला जा सकल दोहराएँ और जल-जंगल-जमीन के संरक्षण-संवर्धन के लिए स्वयं को समर्पित करें। इस अवसर पर संसदीय कार्य, कोयला, खान मंत्री प्रल्हाद जोशी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

#### धनखंड ने बिरसा मुंडा को दी पृष्पांजलि नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़

ानजातीय गौरव दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मंडा

जनजाता गाँख रिटबस के अवसर पर स्वतंत्रता संनता भरता आवा बरस्सा मुंडा को भावभांनी ब्रद्धांति अर्थिक वेहें । हा भनवाड़ ने मंगलवार मुबद संसद भवन परिसर में बिरसा मूंडा की प्रतिमा पर पृथ्य अर्थित विशः प्रस्त असर पर धनवाड़ ने कहा कि बिरसा मूंडा एक निर्माश नेवा थे निकसी आदिवासी आंटोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगान्त दिया। उनका साहस और राष्ट्र के प्रति अर्प्रतिम प्रेम सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।

# भारत स CIN: CERL U45203CT2013

नं. सीईआरएल/22-23/726 नोटिस

जााइन इसीसगढ़ पूर्व रेलवे लिसिटेड (CEEL) रेलवे सम्पत्ती के रख रखाव एवं रेलवे से समन्वय के लिए सेवा निवृत रेलवे स्टाफ अनुबंध पर निवृत्त करने का इराद रखता है। रिकिसयाँ (सभी पद एक-एक) इस प्रकार हैं:-1. टीआरडी सलाहकार, 2. एस ऐंड टी सलाहकार और 3. संचालन

सलाककार। CERL की नीति के अनुसार नियुक्ति होगी। सेव्हानिवृत्त टीआरडी पर्यवेशक, संध्यानिवृत्त सिग्नल पर्यवेशक, सेव्हानिवृत्त एएसएम 30 नर्वाबर 2022 को वा उससे पहले एक विस्तृत व्यायो डाटा के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिनका रेल्डवे में कार्य अनुभव हो वे निम्मलिक्षित पर्छ पर आवश्यक दस्तावों को संलग्न कर प्रियंत करें :

व हा वा ना-मानावादा पा पर आवादक स्टामा वा क्र कान्य कर प्राप्त व मानावादा प्राप्त कर्मकारी अंतिकारी, उत्तरी मीला, CSID व्यंत्रिकक वर्षास्त, मात्रवेष पाट रोड, राष्ट्रा मीला, CSID व्यंत्रिकक वर्षास्त, मात्रवेष पाट रोड, राष्ट्रा केंक्, राष्ट्रा - 492013 (क्रांत्रिकक प्राप्त केंक्, राष्ट्रा - 492013 (क्रांत्रिकक) Email - cericewri@mail.com Phone-0771-2970338 Mobile: '98260 03187

#### **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, रायप्**र

नोटिस सांक/१७४/व-१२१/२०२१-२२/१३२ शवपुर, हिनांक १४ अवद्युव, २०२२

१. पद्माओं विजय दास वैष्णय २. विजय दास वैष्णय आदर्श नगर पो.सहबु जिल्हा रायपुर

3. विकाय पास में माण्या आपनी क्या आपनी का आपनी का आपनी का माण्या अपनी का अपनी का अपनी का माण्या अपनी का माण्या का माण्या अपनी माण्या की आपने के आपने कि अपनी में प्रभा अपनी का अपनी का अपनी का अपनी का माण्या का माण्या अपनी माण्या अपनी माण्या अपनी माण्या अपनी माण्या अपनी माण्या अपनी का माण्या अपनी माण्या अपनी का माण्या अपनी माण्या अपनी का माण्या अपनी माण्या माण्या अपनी माण्या माण्या अपनी माण्या माण्



रायपर । बिलासपर । भोपाल । जबलपर । सतना । सागर । दिल्ली